

हम किसकी सहायता कर सकते हैं

रिलेशन्शिप्स ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूए (Relationships Australia WA) की सेवाएँ सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों, पारिवारिक संरचना, लिंग और यौन अभिविन्यास के लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

हम इन्हें समर्थन प्रदान करते हैं:

- दम्पति और परिवार
- व्यक्ति-विशेष
- बच्चे और युवा लोग
- दादा-दादी/नाना-नानी और देखभालकर्ता
- वृद्धजन और उनके परिवार
- आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग
- शरणार्थी और मानवतावादी प्रवेशक
- घरेलू या पारिवारिक हिंसा का सामना कर रहे व्यक्ति
- मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से ग्रस्त व्यक्ति
- समलैंगिक जोड़े
- व्यावसायिक संगठन
- समुदाय समूह

डब्ल्यूए में हमारे उपस्थिति स्थल

हमारे स्थल पूरे प्रदेश-भर में उपस्थित हैं। इनमें शामिल हैं:

एल्बानी	क्विनाना
बनबरी	मंडुरा
बुसेल्टन	मिडलैंड
फ्रीमेंटल	नॉर्थम
गोस्नेल्स	साउथ हेडलैंड
जून्डालप	वेस्ट लीडरविल

हमसे संपर्क करें

और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए:

कॉल करें 1300 364 277

वेबसाइट पर जाएँ www.relationshipswa.org.au

ईमेल भेजें info@relationshipswa.org.au

ट्विटर पर हमें फॉलो करें [@RelationshipsWA](https://twitter.com/RelationshipsWA)

या फेसबुक पर हमें लाइक करें [@RelationshipsWA](https://www.facebook.com/RelationshipsWA)

Relationships Australia
WESTERN AUSTRALIA

Version 1 - May 2021

हम कौन हैं हम क्या करते हैं



Relationships Australia
WESTERN AUSTRALIA

Hindi - हिन्दी

हम कौन हैं

60 वर्षों से भी अधिक समय से रिलेशन्शिप्स ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूए (Relationships Australia WA) व्यक्ति-विशेषों, दम्पतियों, परिवारों और समुदायों को संबंधों के लिए समर्थन सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

हम एक गैर-लाभकारी सामुदायिक सेवा संगठन हैं, और हमारी कोई भी धार्मिक संलग्नता नहीं है। हम चुनौती और परिवर्तन के समय में आपको समर्थन देने के लिए आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सेवाओं को अनुकूलित करते हैं।

हम कैसे सहायता कर सकते हैं

हम अनेकानेक कार्यक्रमों और सेवाओं के माध्यम से कई प्रकार के मुद्दों या विषयों में सहायता दे सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- विवाह और संबंध
- संबंध बनाना
- अलगाव और पुनःआरंभ
- पैरेंटिंग और स्टेप-पैरेंटिंग
- अनियोजित गर्भावस्था
- पारिवारिक विवाद
- कार्यस्थल मध्यस्थता और परामर्श
- मादक-पदार्थ और एल्कोहल
- क्रोध
- घरेलू और पारिवारिक हिंसा
- शोक और हानि
- संचार
- सांस्कृतिक सामंजस्य
- मानसिक स्वास्थ्य

हम क्या करते हैं

हमारे कार्यक्रमों और सेवाओं में शामिल हैं:

परामर्श

समर्थनपूर्ण, सम्मानजनक और गोपनीय परिवेश में चिंता पैदा करने वाले मुद्दों के बारे में बातचीत करने का अवसर। व्यक्ति-विशेषों, दम्पतियों या परिवारों के लिए परामर्श उपलब्ध है।

मध्यस्थता

हम लोगों को विवाद हल करने में सहायता देने के लिए मान्यता-प्राप्त मध्यस्थकों और पारिवारिक विवाद समाधान पेशेवरों का उपयोग करते हैं। सुविधाकर्ता परामर्श, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, परिवार थेरेपी, कानून और प्रबंधन जैसी विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं।

सामुदायिक शिक्षा

व्यक्ति-विशेषों, दम्पतियों और परिवारों के लिए एक-रात की विभिन्न सेमिनारों और लंबी अवधि के कोर्सों में से चयन करें।

मेन्सप्लेस

पुरुषों को संबंधों और पारिवारिक मुद्दों को संबोधित करने में समर्थन देने के लिए सेवा।

व्यावसायिक विकास

हम आपको कार्यस्थल में सहायता देने के लिए निर्मित अनेकानेक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

बाल संपर्क सेवाएँ

माता-पिता को अपने बच्चों के सर्वोत्तम हित में संपर्क व्यवस्थाओं के प्रबंधन के अपने तरीके विकसित करने में सहायता देने के लिए।

आदिवासी सेवाएँ

अपनी सामान्य सेवाओं के अतिरिक्त हम विशेष रूप से आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रदान करते हैं। इनमें Moorditj Yarning और Djinda सेवाएँ शामिल हैं।

घरेलू और पारिवारिक हिंसा से संबंधित सेवाएँ

ये निःशुल्क सामूहिक कार्यक्रम महिलाओं, युवाओं, बच्चों या पुरुषों के लिए उपलब्ध हैं, जिन्होंने अपने परिवारों में या अपने संबंधों में दुर्व्यवहार का अनुभव किया है या स्वयं ऐसा आचरण किया है।

खोजें और जुड़ें (Find and Connect)

विस्मृत ऑस्ट्रेलियावासियों (Forgotten Australians) और भूतपूर्व बाल प्रवासियों (Former Child Migrants) के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता के लिए सेवा।

बलपूर्वक दत्तक-ग्रहण समर्थन सेवा

बलपूर्वक गोद लेने से प्रभावित हुए किसी भी व्यक्ति के लिए सेवा।

पुनःसमाधान समर्थन सेवा

राष्ट्रीय पुनःसमाधान योजना (National Redress Scheme) के पास आवेदन करने के बारे में सोच रहे व्यक्तियों के लिए समर्थन।

परामर्श और समर्थन

यह सेवा राजकीय विकलांगता आयोग (Disability Royal Commission) से प्रभावित लोगों के लिए है।

वृद्धजनों के लिए समर्थन

इन सेवाओं का उद्देश्य वृद्धजनों और उनके परिवारों को प्रोत्साहन और मूल्य दिए जाने वाले सशक्त, स्वस्थ संबंधों को विकसित करने और इन्हें बनाए रखने के लिए समर्थन देना है।

कार्यकर्ता समर्थन कार्यक्रम

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) [Employee Assistance Program (EAP)] में इस प्रकार की अनेकानेक सेवाएँ उपलब्ध होती हैं, जो व्यक्ति-विशेषों की सकुशलता, कार्य-प्रदर्शन और संगठनात्मक मनोबल को प्रभावित करने वाली व्यक्तिगत तथा कार्यस्थल-संबंधी चिंताओं का सामना करने के उद्देश्य से कर्मचारियों व कार्य-नियोक्ताओं को समर्थन प्रदान करती हैं।

